

3<sup>rd</sup> January, 2023

Corporate Relationship Department  
**BSE Limited**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai – 400 001

**National Stock Exchange of India Limited**  
Exchange Plaza, Plot No. C-1,  
Block G, Bandra – Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai – 400 051

**Scrip Code: 522281**

**Symbol: RAMRAT**

Dear Sir/Madam,

**Sub.: Compliance under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”)**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of Notice to Shareholders published in the following newspapers in connection with transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) published on Tuesday, 3<sup>rd</sup> January, 2023, with respect to the unpaid / unclaimed interim and final dividend for the financial year 2015-16 and onwards:

- I. All India edition of Financial Express;
- II. Mumbai edition of Loksatta; and
- III. Delhi edition of Jansatta.

The list of shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority has been uploaded on the website of the Company at [www.rrshramik.com](http://www.rrshramik.com) under the “Investor Tab”.

You are requested to kindly take on record the same.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For **Ram Ratna Wires Limited**,

**Saurabh Gupta**  
**Company Secretary & Compliance Officer**  
**M. No.: 53006**



## FROM THE FRONT PAGE

## Govt proposes online gaming self-regulation

These organisations will have to come up with a framework to define the content of an online game in a view to safeguard users against harm, ensure that online gaming companies are taking measures to safeguard children, companies are mandatory specifying risk of gaming addiction and financial loss through repeated warning messages at higher frequency beyond a reasonable duration for a gaming session etc, and measures to safeguard against the risk of financial frauds.

"The government has enough powers to intervene in case SROs don't do their jobs. Measures like periodic audit reports from SROs will be prescribed over time," Chandrashekhar said, adding that these organisations will only have to categorise the games.

"It is not a question of whether it is a game of skill, or a game of chance. It is basically a prohibition of wagering on any game. It is the SRO that will determine that," he said.

The governing body of SROs will involve an independent eminent person from the field of online gaming, sports or entertainment, person who represents online game players, individual from field of psychology, consumer education, government appointed individual having experience in public policy, among others.

With regards to the additional due diligence by the gaming companies, the draft rules also make it mandatory for them to display a registration mark given by SROs on all online games, informing its users regarding its policy related to withdrawal or refund of the deposit, manner of determination and distribution of winnings, fees and other charges payable, and KYC (know your customer) procedure for user account registration.

Besides, the online gaming intermediaries will have to mandatorily appoint a chief compliance officer, a nodal contact person for coordination with law enforcement agencies and officers, and must have a physical contact address in India published on its website.

On failure to comply with the framework, the online gaming intermediaries will be liable to punitive punishment as per the IT Act.

"We believe this is a great first step for comprehensive regulation for online gaming and will hopefully reduce the state-wise regulatory fragmentation that was a big challenge for the industry," Roland Landers, the CEO of All India Gaming Federation, said.

## Zomato sees fourth C-suite exit in less than two months

The share price of Zomato, which went public last year, is down over 60% from a high of ₹162. It closed at ₹60.25 apiece on Monday.

Besides Zomato, a clutch of new-age technology companies -- including Paytm, Nykaa, Delhivery, Policybazaar, CarTrade and Nazara -- have lost nearly ₹2.5 trillion in market capitalisation since listing on the exchanges. Shareholders have been disappointed by either their poor performance or unwieldy acquisitions, like Blinkit in the case of Zomato. Analysts at Jefferies said the scepticism on quick commerce was high "given no proof of concept yet in any large market in the world".

## No legal flaw in govt's note ban move: SC

Though the tax collections and buoyancy have seen growth marginally higher than the trend for certain periods after demonetisation and particularly in FY22 following the pandemic, no

cogent evidence has been provided by the government to link this to the controversial decision. Also, the economic cost of the move in terms of loss of growth pace has been estimated as substantive, besides unquantifiable human suffering.

However, there's been a big jump in digital payments -- UPI transactions grew from just ₹100 crore in the month of demonetisation to a whopping ₹1.282 trillion in December 2022.

Justice BV Nagarathna wrote a dissenting judgment, where she called the decision to withdraw 500 and 1,000 rupee notes "unlawful" and "vitiated, albeit being well-intentioned". The proposal should have been discussed in Parliament and conducted through legislation, she said. "Under sub-section (2) of Section 26 of the RBI Act, the initiation of the process of demonetisation and the exercise of power originates from the Central Board of the Bank which has to recommend to the Central Government and the latter may accept the recommendation and in such event it would issue a gazette notification," the dissenting judge noted, citing that in the instant case, it was the Centre which "initiated" the process.

According to the majority view, however, the decision had a reasonable nexus with its objectives, such as eradicating black money, terror funding etc. The court also said the 52-day window provided for the exchange of the demonetised notes with legal tenders was "not unreasonable" and it cannot be extended now.

"The power available to the Centre under section 26(2) of the RBI Act cannot be restricted to mean that it can be exercised only for some series of notes and not for all series of notes. Merely because on two earlier occasions, the demonetisation exercise was by plenary legislation, it cannot be held that such power would not be available to the Central government," Justice BR Gavai, who read the majority judgment, said.

The bench said section 26(2) does not provide for excessive legislation in as much as there is an in-built safeguard that such a power has to be exercised on the recommendation of the RBI's central board and that it is not liable to be struck down.

The top court's judgment came on a batch of 58 petitions challenging the demonetisation move. Calling the demonetisation "deeply flawed", the petition-

ers had argued that the Centre cannot on its own initiate any proposal relating to legal tender.

Justice Nagarathna opined that demonetisation of all series of notes at the Centre's instance is a far more serious issue that has wider implications on the economy and the citizens of the country. Observing that there was no independent application of mind by RBI, she said the entire exercise was carried out in 24 hours.

"In my view, the power of the Central government being vast has to be exercised through a plenary legislation rather than by an executive act by issuance of notification. It is necessary that Parliament, which consists of the representatives of the people of the country, discusses the matter and thereafter, approves the matter," Justice Nagarathna said.

Defending the demonetisation exercise, the government had said the court cannot decide a matter when no tangible relief can be granted by way of "putting the clock back" and "unscrambling a scrambled egg".

RBI had earlier admitted in its submission that there were "temporary hardships" and that those, too, are an integral part of the nation-building process.

Political parties reacted to the SC decision variously. The BJP on Monday hailed the judgment as "historic" and slammed the Congress for its campaign against the decision and asked if its leader Rahul Gandhi will tender an apology after the verdict. Former law minister and BJP leader Ravi Shankar Prasad asserted that the demonetisation done in 2016 proved to be the "biggest blow" to terrorism by curbing terror funding. It boosted income tax and cleansed the economy, he claimed. It is "misleading and wrong" to say the Supreme Court has upheld demonetisation, the Congress said on Monday, adding that the majority apex court verdict on the matter deals with the limited issue of the process of decision-making and not with its outcomes.

The verdict has nothing to say on whether the stated objectives of demonetisation were met, AICC general secretary Jairam Ramesh said.

Former finance minister P Chidambaram, who was also a counsel for the petitioners, tweeted on Monday that the court's majority decision "steered clear of the question whether the objectives were achieved".

## BIG BOOST FOR STOCKS

## FCI's paddy purchase up 11% at 53 MT

The government aims to procure 90 MT of paddy in 2022-23 (Oct-Sept)

SANDIP DAS  
New Delhi, January 2

THREE MONTHS SINCE the commencement of paddy procurement by the Food Corporation of India (FCI) and state government agencies for the current kharif season (2022-23), the total purchase till Sunday was up by 11% on year at 53 million tonne (MT).


Higher grain procurement is expected to boost rice stocks held by FCI, which has been depleted by implementation of the free ration scheme that was implemented during April, 2020 - December, 2022. As on January 1, FCI had 12.4 MT of rice along with 32.5 MT to be received from millers which was far more than the buffer requirement of 7.6 MT.

Officials said that surplus rains, especially by the end of September and the first week of October, prior to paddy harvesting, have not impacted mandi arrivals. Punjab, Haryana, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Telangana and Odisha have contributed the most to the procurement drive.

In Punjab, the biggest contributor to the central pool, the agencies including FCI have purchased 18.2 MT of paddy this season, which is 2.7% less than during the same period in the previous year.

Agencies in Haryana have procured 5.8 MT of grains under MSP operations, which was marginally higher than a year ago. In Telangana, agencies have purchased 5.5 MT of paddy so far which is a marginal increase from the previous year.

In Chhattisgarh and Odisha, where paddy purchase by agencies is currently being



undertaken, 7.85 MT and 1.87 MT of paddy respectively have been procured from the farmers under MSP operations till Sunday which is 48% and 67% more than previous year.

In Uttar Pradesh, where the paddy crop was impacted by unseasonal rains in October, agencies have purchased 4.2 MT of grain which is marginally less than the previous year. Other key states which have contributed significantly include Andhra Pradesh (1.8 MT), Tamil Nadu (0.8 MT), Uttarakhand (0.8 MT) and so far.

The government is aiming to procure 90 MT of paddy in the entire marketing season (2022-23). Paddy-to-rice conversion ratio is 67%. After paddy is procured from the farmers by the FCI and state agencies, it is handed over to millers for conversion into rice.

FCI supplied rice for distribution to more than 800 million beneficiaries under the National Food Security Act and other welfare schemes. The rice procured from grain-surplus states is also used for keeping a buffer stock with the FCI.

According to an agriculture ministry estimate, rice production could decline by 6 MT in the 2022-23 crop year (July-June) from a record 130 MT in the 2021-22 crop year.

## Budget session set to begin on Jan 31

New Delhi, January 2

THE BUDGET SESSION of Parliament is likely to begin on January 31 and is expected to conclude on April 6 with a recess in between, government sources said on Monday. Finance minister Nirmala Sitharaman is likely to present the Union Budget on February 1 and the first part of the session is expected to continue till February 10, the sources said.

The session will start with an address by President Droupadi Murmu to the joint sitting of the Lok Sabha and Rajya Sabha in the Central Hall of Parliament. This will be the first address to the two Houses of Parliament by President Murmu since her elevation to the top post in August last year.

The Economic Survey will also be tabled in both Houses on the first day of the budget session, the sources said.

They said that after a recess during which the standing committees examine the demands of grants of various ministries, the second part of the Budget Session is likely to start on March 6 and conclude on April 6.

During the first part of the Budget Session, the two Houses have a detailed discussion on the Motion of Thanks to the President's address followed by a discussion on the Union Budget.

While Prime Minister Narendra Modi will reply to the debate on the Motion of Thanks to the President's address, the finance minister will reply to the debate on the union budget.

During the second part of the Budget Session, the major focus is on the discussion on the demands for grants for various ministries apart from the government's legislative agenda. The Union Budget, a money bill, is passed during this part of the session. —ANI

**TATA Enterprise**

**TRF LIMITED**  
Corporate Identity No. (CIN): L74210/JH1962PLC00700  
Regd. Office: 11, Station Road, Baramulla, Jamshedpur, Jharkhand-831007  
Tel: +91 657 2345727, Email: comp\_sec@trf.co.in, Website: www.trf.co.in

**NOTICE TO POSTAL BALLOT**

Members of TRF Limited ("the Company") are hereby informed that pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, ("Act") read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) ("Rules"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), each as amended and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for conducting postal ballot process through e-voting vide General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021 and 11/2022 dated December 28, 2022, in view of the COVID-19 pandemic (collectively the "MCA Circulars"), and pursuant to the other applicable laws and regulations, the Company has on January 2, 2023, completed dispatching the Postal Ballot Notice dated December 30, 2022 ("Postal Ballot Notice" / "Notice") for seeking approval to transact the Business as set out below and as contained in the Notice, by e-mail only, to the Members whose names appear in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (hereinafter collectively referred to as "Depositories") and whose e-mail addresses are available with the Depositories, the Company or Registrar and Share Transfer Agent of the Company viz. TSR Consultants Private Limited ("RTA") as on Friday, December 23, 2022 ("Cut-Off Date") ("Eligible Members"). The voting rights shall also be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name(s) of the Member(s) as on Cut-Off Date.

The Notice contains the following resolutions which are to be transacted by way of postal ballot:

Sl. No.	Type of Resolution	Description of Resolutions
1	Ordinary Resolution	Appointment of Mr. Umesh Kumar Singh (DIN: 08708676) as Director
2	Special Resolution	Appointment of Mr. Umesh Kumar Singh (DIN: 08708676) as Managing Director
3	Ordinary Resolution	Appointment of Mr. Sanjib Nanda (DIN: 01045306) as Director

The Postal Ballot Notice is also available on the website of the Company at www.trf.co.in in the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com on the website of the Stock Exchanges on which the equity share of the Company are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

Please note that on account of the threat posed by the COVID-19 pandemic and in terms of the requirements specified in the MCA Circulars, the Company is sending this Notice in electronic form only. Accordingly, physical copy of the Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope is not being sent to the Members for this Postal Ballot.

In accordance with the provisions of Section 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Act, read with Rules 20 and 22 of the Rules, Regulation 44 of the Listing Regulations, SS-2 and the MCA Circulars, each as amended from time to time, and pursuant to other applicable law and regulations, the Company is providing the Eligible Members the facility to cast their votes through remote e-voting facility for seeking approval in respect of Special/Ordinary Resolution set out in the Postal Ballot Notice. The Company has engaged the services of NSDL for providing remote e-voting facilities to the Eligible Members, to enable them to cast their vote electronically and in a secure manner.

To facilitate Members to receive this Notice electronically, the Company has made special arrangement with its RTA for registration of e-mail addresses in terms of the MCA Circulars. The Members who have not registered their e-mail addresses with the RTA, are required to provide the same to the RTA, on or before 5:00 p.m. (IST) on Wednesday, January 25, 2023 pursuant to which, any Member, may receive on the e-mail address provided by the Member, this Notice and the procedure for the remote e-voting along with the login ID and password for remote e-voting.

The Process for registration of e-mail addresses is as under:

**The process for one-time registration of e-mail address is as under:**

**I. For Members who hold shares in electronic form:**

- Visit the link: [https://tclp.linkintime.co.in/EmailReg/Email\\_Register.html](https://tclp.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html)
- Select the name of the Company from drop down: TRF Limited
- Enter details in respective fields such as DP ID and Client ID, Name of the Shareholder, PAN details, mobile number and e-mail ID.
- System will send OTP on mobile number and e-mail ID.
- Enter OTP received on mobile number and e-mail ID and submit.

**II. For Members who hold shares in physical form:**

- Visit the link: [https://tclp.linkintime.co.in/EmailReg/Email\\_Register.html](https://tclp.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html)
- Select the name of the Company from drop down: TRF Limited
- Enter details in respective fields such as Folio no. and Certificate no., Name of the Shareholder, PAN details, mobile number and e-mail ID.
- System will send OTP on mobile number and e-mail ID.
- Enter OTP received on mobile number and e-mail ID and submit.

After successful submission of the e-mail address, NSDL will e-mail a copy of this Notice along with the remote e-voting user ID and password, to the Member. In case of any queries, Members may write to [cs@tclpindia.co.in](mailto:cs@tclpindia.co.in) or [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)

For permanent registration of their e-mail addresses, Members are requested to register their e-mail addresses, in respect of electronic holdings with their concerned Depository Participants and in respect of physical holdings with the Company's RTA, TSR Consultants Private Limited, at C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, E-mail id: [cs@tclpindia.co.in](mailto:cs@tclpindia.co.in)

Those Members who have already registered their e-mail addresses are requested to keep their e-mail addresses validated/updated with their Depository Participants / the Company's RTA, TSR Consultants Private Limited, at C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, E-mail id: [cs@tclpindia.co.in](mailto:cs@tclpindia.co.in) in enable serving of notices/document/Annual Reports electronically to their e-mail address.

**The voting process shall commence on Tuesday, January 3, 2023 at 9:00 a.m. (IST) and end on Wednesday, February 1, 2023 at 5:00 p.m. (IST).**

Eligible Members are requested to record their dissent (FOR) or dissent (AGAINST) through the remote e-voting process not later than 5:00 p.m. (IST) on Wednesday, February 1, 2023. Remote e-voting will be disabled by NSDL immediately thereafter and the Members will not be allowed to vote beyond the said date and time. During this period, Members of the Company holding shares either in physical or dematerialised form, as on the Cut-Off Date, as mentioned above may cast their vote electronically. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to modify it subsequently. A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat this Postal Ballot Notice for information purposes only.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager-NSDL at [pallavi@nsdl.co.in](mailto:pallavi@nsdl.co.in) / [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or contact at NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mill Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. P. N. Parikh (Membership No. FCS 327, CP No. 1228) or failing him, Ms. Jigyasa N. Ved (Membership No. FCS 6488, CP No. 6018) or failing her, Mr. Mitesh Dhaliwala (Membership No. FCS 8331, CP No. 9511) of Parikh & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize the postal ballot process in a fair and transparent manner.

Upon completion of the scrutiny of the votes cast, the Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Company or to any other person authorised by him. The voting results of Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report will be made available on the website of the Company at [www.trf.co.in](http://www.trf.co.in) and on the website of NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) and intimated to BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), where the shares of the Company are listed, on or before Friday, February 3, 2023. Additionally, the results will also be placed on the notice board at the Registered Office of the Company.

**TRF Limited**  
Sd/-  
**Prasun Banerjee**  
Company Secretary & Compliance Officer  
Membership No. ACS: 29791

January 2, 2023  
Jamshedpur

**AANCHAL ISPAT LIMITED**  
CIN: L27106WB1996PLC076866  
Registered Office: Mouza - Chamrail, NH - 6  
Howrah, West Bengal - 711114  
Email: [info@aanchalispst.com](mailto:info@aanchalispst.com), Tel: 03212-246121  
Website: [www.aanchalispst.com](http://www.aanchalispst.com)

**POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), Secretarial Standard-2 on General Meetings ("the SS-2"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), and other applicable provisions, of the Act, rules, regulations, circulars and notifications (including any statutory modification(s), clarification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the resolution as set out hereunder is proposed for the approval of the Members of Aanchal Ispat Limited ("the Company" or "AIL") as Special Resolution, by way of Postal Ballot only by the way of remote e-voting process.

The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website at [www.aanchalispst.com](http://www.aanchalispst.com), the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

The Resolution as proposed in the Postal Ballot Notice is to be transacted by way of Postal Ballot remote e-voting ("e-voting"). The Company has engaged the services of NSDL for the purpose of providing an e-voting facility to all its Members. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date on Friday, 30th December, 2022, and as per the Register of Members of the Company. A person who is not a Member as on the Cut-off date, should treat this Notice for information purposes only.

Members are requested to note that the Postal Ballot e-voting will commence on Wednesday, 4th January, 2023 from 10.00 a.m. (IST) and end on Thursday, 2nd February, 2023 at 5.00 p.m. (IST). Similarly, in case of e-voting, the e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time. The detailed procedure of e-voting is mentioned in the Postal Ballot Notice.

The Board of Directors of the Company has appointed M/s. Manisha Saraf & Associates (Membership No. FCS 7607, C.P. No. 8207), Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the Postal Ballot e-voting process in a fair and transparent manner. The scrutinizer will submit their report to the Company after the completion of scrutiny of E-Voting but not later than two days from the date of conclusion of the Postal Ballot process, and the result of the Postal Ballot (voting through electronic means) will be announced at the Registered Office of the Company and will be communicated to the Stock Exchange where the shares of the Company are listed and will also be placed on the website of the Company.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).

For Aanchal Ispat Limited  
Sd/-  
**Mukesh Goel**  
(Managing Director)

Place : Howrah  
Date : 03.01.2023

**RR SHRAMIK RAM RATNA WIRES LIMITED**  
(CIN: L31300MH1992PLC067802)

Regd. Office: Ram Ratna House, Oasis Complex, P.B. Marg, Worli, Mumbai 400 013 • Tel: +91 - 22 - 2494 9009/2492 4144  
Email id: [investorrelations@rrglobal.com](mailto:investorrelations@rrglobal.com) • Website: [www.rrshramik.com](http://www.rrshramik.com)

**NOTICE TO SHAREHOLDERS**  
**TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) ACCOUNT**

NOTICE is hereby given in compliance with the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended from time to time, the Company is required to transfer all shares in respect of which dividend has remained unpaid or unclaimed by the shareholders for a period of seven consecutive years or more, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account ("IEPF Account").

In compliance with the Rules, the Company has sent communication to the concerned shareholders who have not encashed their Interim and Final dividend for the financial year 2015-16 and all subsequent dividends declared and paid by the Company, advising them to claim their unclaimed dividends, whose shares are liable to be transferred to IEPF and the full details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF are available on its website at [www.rrshramik.com](http://www.rrshramik.com) under Investor tab. Shareholders are requested to refer to the said website to verify the details failing which their shares shall be transferred to the IEPF Account.

The concerned shareholder holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Account, may note that Duplicate share certificate(s) will be issued in lieu of original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of such shares to IEPF Account and the original share certificate(s) held by the shareholders, will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of holding shares in dematerialized form by the concerned shareholders, the Company will inform respective Depositories by way of corporate action for transfer of these shares to IEPF Account.

In case the concerned Shareholders do not claim their unclaimed dividends on or before 31<sup>st</sup> March, 2023, the Company shall as per the requirements of the Rules, transfer the shares to the IEPF Account without any further notice to the Shareholders and no claim shall lie against the Company in respect of the unclaimed dividend amount and shares so transferred.

The Shareholders may note that they are eligible to claim both the unclaimed dividends and corresponding shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF Authority by following the procedure as prescribed under the Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Datamatics Business Solutions Limited, Unit- Ram Ratna Wires Limited, Plot No. B-5, Part B Cross Lane, MIDC, Behind MIDC Police Station, Andheri (East), Mumbai - 400093, Tel: 022-66712001-10, Fax: 022-66712011 E-mail: [investorsqr@datamaticsbpm.com](mailto:investorsqr@datamaticsbpm.com), Website: [www.datamaticsbpm.com](http://www.datamaticsbpm.com)

For Ram Ratna Wires Limited  
Sd/-  
**Saurabh Gupta**  
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Mumbai  
Date : 02<sup>nd</sup> January, 2023

**POST OFFER ADVERTISEMENT TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OMEGA INTERACTIVE TECHNOLOGIES LIMITED**  
(CIN: L67120MH1994PLC077214)  
"OITL" / "TARGET COMPANY" / "TC")  
Registered Office: 402, 4<sup>th</sup> Floor, Vaastu Darshan, "B" Wing, Azad Road, Andheri (East), Mumbai 400 069, Maharashtra | Phone No. +91-22-6191 9200;  
Email id: [omegainteractive.technologies@gmail.com](mailto:omegainteractive.technologies@gmail.com); Website: [www.omegainteractive.net](http://www.omegainteractive.net)

Open offer for acquisition up to 1,30,000 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the total equity and voting share capital of the Target Company by Mr. Jayesh Amratlal Shah (hereinafter referred to as "the Acquirer").

This Post Offer Advertisement is issued by Navigant Corporate Advisors Limited, The Manager to the offer, on behalf of the Acquirer, in connection with the offer made by the Acquirer in compliance with regulation 18 (12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulation, 2011").

The Detailed public statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirer has appeared in Financial Express - English Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions) and Mumbai Lakshadeep - Marathi Daily (Mumbai edition) on 11th October, 2022.

- Name of the Target Company : Omega Interactive Technologies Limited
- Name of the Acquirer : Mr. Jayesh Shah
- Name of Manager to the Offer : Navigant Corporate Advisors Limited
- Name of Registrar to the Offer : Purva Share Registry (India) Private Limited
- Offer Details
- Date of Opening of the Offer : Wednesday, 14.12.2022
- Date of Closing of the Offer : Tuesday, 27.12.2022
- Date of Payment of Consideration : 02.01.2023
- Details of the Acquisition

Sl. No.	Particulars	Proposed in the Offer Document	Actuals
7.1	Offer Price	Rs. 20/- per Equity Share	Rs. 20/- per Equity Share
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	1,30,000	62,874
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted	1,30,000	62,874
7.4	Size of the Open Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)	Rs. 26,00,000	Rs. 12,57,480
7.5	Shareholding of the Acquirer before Share Purchase Agreement (SPA) and Public Announcement (No. & %)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
7.6	Equity Shares acquired by way of Share Purchase Agreement	42,098 (8.42%)	42,098 (8.42%)
7.7	Equity Shares acquired by way of Open Offer	1,30,000 (26.00%)	62,874 (12.57%)
7.8	Equity Shares acquired after the Detailed Public Statement	Not Applicable	Not Applicable
7.9	Post-Offer shareholding of the Acquirer	1,72,098 (34.42%)	1,04,972 (20.99%)
7.10	Pre-Offer and Post-Offer shareholding of the Public Shareholders	Pre-Offer: 4,43,723 (88.74%) Post-Offer: 3,13,723 (62.74%)	Pre-Offer: 4,43,723 (88.74%) Post-Offer: 3,80,849 (76.17%)

8. The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the fulfillment of his obligations as laid down by SEBI (SAST) Regulations, 2011.

9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, BSE Limited and Target Company.

10. Capitalized terms used in this advertisement and not defined herein, shall have same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated 29.11.2022.

**ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER MR. JAYESH AMRATLAL SHAH**

**Navigant**  
NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED  
423, A Wing, Bonanza, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.  
Tel No. +91 22 4120 4837 / 4973 5078  
Email id:







राष्ट्रिय
फॉर्म सीए-2
<div>एसबीएफ इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सुरक्षित लेनदारों के बैठक की सूचना को विज्ञापन के सम्बन्ध में</div>
<div><div><span><span></span></span></div><div><span></span></div></div> <div>दिनांक 1 जनवरी 2023 को जनसत्ता अखबार-दिल्ली और एनसीआर में प्रकाशित फॉर्म सीए-2, एसबीएफ इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सुरक्षित लेनदारों के बैठक की सूचना के विज्ञापन के सम्बन्ध में रिमोट ई-वोटिंग का समय गलत प्रकाशित हो गया है। सही समय नीचे दिया गया है:- रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 2 जनवरी, 2023 (नवरात्रि 12 बजे आईएसटी) से शुरू होगी और सोमवार, 31 जनवरी, 2023 (सुबह 10-59 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी।</div>
अन्य विवरण पहले समाप्त हैं।
हस्ता /— एडवोकेट निम्नलिखित सागल बैठक के लिए अध्यक्ष नियुक्त
दिनांक : 02.01.2023

Criminal Courts, Ludhiana
In the court of Ms. Divya Sharma JMJC Ludhiana Date: 06-02-2023
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on https://districts.courts.gov.in/ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd Vs
Jitendra @ Jitendra Singh Jadon
CNR NO: PBLD03-042918-2019
Publication Issued To: Jitendra @ Jitendra Singh Jadon Address- S/o Ramjilal Jadon R/o 6 Gram Sumavali, Village Sumavali Teh/ Jha, Morena 476229 Madhya Pradesh
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 06-02-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details login to: https://highcourtchd.gov.in/7rs=distric, notice&district=ludhiana JMJC Ludhiana



पत्रांक : निष्पक्ष/निविदा शुद्धि सूचना / 2023-888 दिनांक:- 02.01.2023

Criminal Courts, Ludhiana
In the court of Ms. Divya Sharma JMJC Ludhiana Date: 06-02-2023
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on https://districts.courts.gov.in/ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd Vs
Govind Singh Gaur
CNR NO: PBLD03-026834-2019
Publication Issued To: Govind Singh Gaur Address- Wraash Vikash Hanspuram A 1158, Naubasta Kasigaon Kanpur 208021 UP India
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 06-02-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details login to: https://highcourtchd.gov.in/7rs=distric, notice&district=ludhiana JMJC Ludhiana

कार्यालय-उप महाप्रबन्धक (सकनीती), उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विभाग नईद, एमो रमिन्स, टोटागढ़गढ़ा, हल्द्वानी (नैनीताल)
Email ID: dchd@gmail.com
पत्रांक : निष्पक्ष/निविदा शुद्धि सूचना / 2023-888 दिनांक:- 02.01.2023
निविदा शुद्धि सूचना
कार्यालय पत्रांक 848 दिनांक 20.12.2022 के द्वारा विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित निविदा जो दिनांक <b>05.01.2023</b> को आमंत्रित की गयी थी। उक्त तिथि <b>(05.01.2023)</b> को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के कारण निविदा दिनांक 06.01.2023 को आमंत्रित की जाती है। शेष निविदाओं की शर्तें यथावत रहेंगी।
उप महाप्रबन्धक (सकनीती)

RAM RATNA WIRES LIMITED
(CIN: L31300MH1992PLC067802)
Regd. Office: Ram Ratna House, Oasis Complex, P.B.Marg, Worli, Mumbai 400 013 • Tel: +91 - 22- 2494 9009/2492 4144
Email Id: investorrelations@rrglobal.com • Website: www.rshrnamik.com
NOTICE TO SHAREHOLDERS
TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) ACCOUNT
NOTICE is hereby given in compliance with the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended from time to time, the Company is required to transfer all shares in respect of which dividend has remained unpaid or unclaimed by the shareholders for a period of seven consecutive years or more, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account ("IEPF Account").

In compliance with the Rules, the Company has sent communication to the concerned shareholders who have not encashed their Interim and Final dividend for the financial year 2015-16 and all subsequent dividends declared and paid by the Company, advising them to claim their unclaimed dividends, whose shares are liable to be transferred to IEPF and the full details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF are available on its website at [www.rshrnamik.com](http://www.rshrnamik.com) under Investor tab. Shareholders are requested to refer to the said website to verify the details failing which their shares shall be transferred to the IEPF Account.

The concerned shareholder holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Account, may note that Duplicate share certificate(s) will be issued in lieu of original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of such shares to IEPF Account and the original share certificate(s) held by the shareholders, will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of holding shares in dematerialized form by the concerned shareholders, the Company will inform respective Depositories by way of corporate action for transfer of these shares to IEPF Account.

In case the concerned Shareholders do not claim their unclaimed dividends on or before 31<sup>st</sup> March, 2023, the Company shall as per the requirements of the Rules, transfer the shares to the IEPF Account without any further notice to the Shareholders and no claim shall lie against the Company in respect of the unclaimed dividend amount and shares so transferred.

The Shareholders may note that they are eligible to claim both the unclaimed dividends and corresponding shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF Authority by following the procedure as prescribed under the Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Datamatics Business Solutions Limited, Unit- Ram Ratna Wires Limited, Plot No. B-5, Part B Cross Lane, MIDC, Behind MIDC Police Station, Andheri (East), Mumbai – 400093, Tel: 022-66712001-10, Fax: 022-66712011 E-mail: [investorsqry@datamatics.com](mailto:investorsqry@datamatics.com), Website: [www.datamaticsbpm.com](http://www.datamaticsbpm.com)

For Ram Ratna Wires Limited

Sd/-

Saurabh Gupta

Company Secretary

&amp; Compliance Officer

Place : Mumbai

Dated: : 02<sup>nd</sup> January, 2023

Criminal Courts, Ludhiana
In the court of Ms. Divya Sharma JMJC Ludhiana Date: 06-02-2023
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on https://districts.courts.gov.in/ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd Vs
Parivartan Singh
CNR NO: PBLD03-026836-2019
Publication Issued To: Parivartan Singh Address- R/o B 106 Tarun Cooperative Society Gh 2, Sec 47 Gurgaon Haryana 122001
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 06-02-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details login to: https://highcourtchd.gov.in/7rs=distric, notice&district=ludhiana JMJC Ludhiana

## आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संश्लिष्ट और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

सीएसएन : एल68110टीएन2014कैपिटलफर्स्ट7892

पंजीकृत कार्यालय : केआरएल टॉवर, अंधा तल, हरिद्वार रोड, सेक्टर-6, चेम्बै-500091

दूरभाष : 81 44 4564 4000, फैक्स: 81 44 4564 4022

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित

प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संश्लिष्ट और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) से निम्न वर्णित प्रतिभूत ऋण प्राप्त किए थे। निम्न-वर्णित ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के ऋणों को उनकी संबंधित संस्थितियों के बैंक द्वारा प्रतिभूत किया गया है। नृकि वे संबंधित ऋणकर्ताओं के नियमों एवं शर्तों का पालननुपालन करने में विफल हो चुके हैं, अतः उनके ऋण खाता को आरक्षित/अडि डिशमिंटिडो के अनुसार पनपिए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। और इस प्रकार, उनकी ओर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संश्लिष्ट और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को देय-भुगतये धनराशिओं को संश्लिष्ट निर्गत सूचनाओं के अनुसार अंकित किया गया है, जो अधिक विशिष्ट रूप में निम्नलिखित तालिका में संक्षिप्त हैं और उक्त धनराशिओं पर मुआवित्त होना और ब्याज जो है वह उनकी संबंधित संस्थितियों से प्रभावी सिविदात्मक दर के अनुसार प्रभासित किया जाएगा।

क्र.सं.	ऋण खाता सं.	ऋण प्रकार	ऋणकर्ताओं एवं सह-ऋणकर्ताओं के नाम	धारा 13(2) सूचना तिथि	धारा 13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि	संपत्ति पता
1.	27319479, 32602045 एवं 27718523	संश्लिष्ट व समक्ष ऋण	1. वीएन एंटरप्राइजेज प्रोप. प्राीन जेरेथ 2. जेरेथ सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड 3. मुदल जेरेथ 4. नवीन जेरेथ 5. निवेशित जेरेथ 6. वीणा जेरेथ	23-11-2022	2,40,42,507.10/-	संयुंर्प हितिया तल (छात्राधिकारों के विना) के समस्त यह भाग तथा अंश, जिनका निर्माण संश्लिष्ट सं. एल-7 पर हुआ है, भाग 238 वर्ग गज, जो लाजपत नगर-111, नई दिल्ली में स्थित तथा इस प्रकार परिशीलित है: पूर्व- भूखंड सं. एल-8, पश्चिम- भूखंड सं. एल-6, उत्तर- सॉलिट लेन, दक्षिण- सड़क एवं पार्क।

आपको एवढुद्धा निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में निश्लिष्ट विवरणों के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संश्लिष्ट और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को बकाया धनराशिओं का उभकी संश्लिष्ट संस्थितियों से धनराशिओं पर रमणाकृत कागज की सिविदात्मक दर पर ब्याज और अन्य लागतों, शुल्कों, इत्यादि के साथ, इस प्रकार की तिथि से 60 दिनों में भुगतान करें। भुगतान करने में विफल रहने पर ओवरड्राफ्टकर्ता जो है वह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संश्लिष्ट और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को देय-भुगतये धनरा, शिथी की वसुली करने के लिए ब्याज इतने उपरोक्त शर्तों कोपेक्षकृत संस्थितियों के विरुद्ध सार्वभूमि अधिनियम की धारा 13(4) एवं धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने को बाध्य-विश्व होतें। इसके अतिरिक्त, आप पर उक्त अधिनियम की धारा 13(1) के अंतर्गत प्रतिक्रिा लमाया जाता है कि आप उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय/पट्टा के माध्यम से अपना अन्धका हस्तान्तरण नहीं कर सकेंगे।

हस्ता /— प्रभिकृत अधिकारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संश्लिष्ट और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)
दिनांक : 03-01-2023 स्थान : नई दिल्ली

## AXIS BANK LTD. अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी की सूचना

रिटेल एक्सटेंड सेंटर : प्रथम तल, जो-4/5, भी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ- 226010

रजिस्टर्ड ऑफिस : त्रिखल, तृतीय तल, समरवेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद- 380006



प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित आसित्यों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्यभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभासित है, का भीतिक कक्षा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जो "जैसा है जहाँ है" और "जो कुछ भी है के आधार पर" दिनांक 24.01.2023, प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के मध्य देवा जाएगा। (बोली/निविदा ईएमडी के साथ जमा करने के अंतिम तिथि: 23.01.2023, समय: 5:00 बजे तक), को स्रो-1: लिखित खुराना पुनर् दीपक खुराना, 2. श्रीमती माया खुराना पत्नी श्री जितेन्द्र खुराना, से प्रतिभूत लेनदार की रूपये 34,41,959.00 रुपया पुरा लागत दिनांक 30.12.2022 की बकाया राशि की वसुली हेतु ऋण खाता सं PHR008601478434 एवं PHR008601965668, से देय है। कृपया आवश्यक जानकारी के लिये नीलामी हेतु निम्न विवरण :-


क्र.सं.	सम्पत्ति का ईडीएफसी बैंक की जानकारी (कोई नाराजिकोई)	आरक्षित मूल्य (रु० में) ऑरिजि जमा धनराशि (रु० में)	बोली बडोलरी धनराशि	सम्पत्ति का अनुसूची विवरण	सार्वजनिक ई-नीलामी की तिथि, समय एवं स्थान
1.	नहीं	रु 19,97,327.00(रु० में) 4,82,031.00 (अंशिम जमा धनराशि) द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर एक्सिस बैंक लिखनऊ/आगरा के पक्ष में देय	10,00,00,00 (रु० दस हजार मात्र)	सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं 14, 15 एवं 16, गोकुल धाम कॉलोनी, खसर नं. 678, मौजा रावल बागिर मधुपुर उडुगु (प्रवर्तन), एरिसा: 5397.00 वर्ग फीट, चौहदरी:- पूर्व रोड, पश्चिम: अन्य की भूमि, उत्तर: अन्य की भूमि, दक्षिण: रोड	24 जनवरी, 2023, प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के मध्य, साथ में 5 मिनट का असीमित विस्तार प्रत्येक वेब पोर्टल पर <a href="https://www.bankauctions.com">https://www.bankauctions.com</a> ई-नीलामी निविदा प्रपत्र, जिसमें ई-नीलामी बोली फार्म, घोषणा आदि, सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आम लोगों को विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्यभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभासित है, का भीतिक कक्षा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जो "जैसा है जहाँ है" और "जो कुछ भी है के आधार पर" दिनांक 24.01.2023, प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के मध्य देवा जाएगा। (बोली/निविदा ईएमडी के साथ जमा करने के अंतिम तिथि: 23.01.2023, समय: 5:00 बजे तक), को स्रो-1: लिखित खुराना पुनर् दीपक खुराना, 2. श्रीमती माया खुराना पत्नी श्री जितेन्द्र खुराना, से प्रतिभूत लेनदार की रूपये 34,41,959.00 रुपया पुरा लागत दिनांक 30.12.2022 की बकाया राशि की वसुली हेतु ऋण खाता सं PHR008601478434 एवं PHR008601965668, से देय है। कृपया आवश्यक जानकारी के लिये नीलामी हेतु निम्न विवरण :-

क्र.सं.	सम्पत्ति का ईडीएफसी बैंक की जानकारी (कोई नाराजिकोई)	आरक्षित मूल्य (रु० में) ऑरिजि जमा धनराशि (रु० में)	बोली बडोलरी धनराशि	सम्पत्ति का अनुसूची विवरण	सार्वजनिक ई-नीलामी की तिथि, समय एवं स्थान
1.	नहीं	रु 48,20,310.00(रु० में) 4,82,031.00 (अंशिम जमा धनराशि) द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर एक्सिस बैंक लिखनऊ/आगरा के पक्ष में देय	10,00,00,00 (रु० दस हजार मात्र)	भूमि/सम्पत्ति के समी भाग एवं खण्ड स्थित प्लॉट नं. 652, 653, 654, 646 बैकपुल धाम कॉलोनी, सलीपुर, मधुरा उडुगु- 281004, एरिसा:- 344.44 वर्ग मी, चौहदरी:- पूर्व- रास्ता, पश्चिम- प्लॉट नं. 544, 545 एवं 546, उत्तर- प्लॉट नं. 544, 545 एवं 555, दक्षिण- प्लॉट नं. 547, 551	24 जनवरी, 2023, प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के मध्य, साथ में 5 मिनट का असीमित विस्तार प्रत्येक वेब पोर्टल पर <a href="https://www.bankauctions.com">https://www.bankauctions.com</a> ई-नीलामी निविदा प्रपत्र, जिसमें ई-नीलामी बोली फार्म, घोषणा आदि, सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

क्रियक के नियम व शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट <https://www.axisbank.com/auction> -रैल पर एवं बैंक की सूचीकृत सेवा प्रदाता M/S C1 India Private Limited को अपने वेब पोर्टल <https://www.bankauctions.com> पर जाने लिये एवं श्री निवेशक कुमार- +91-7080804466 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं। नीलामी बैंक की सूचीकृत सेवा प्रदाता M/S C1 India Private Limited द्वारा अपने वेब पोर्टल <https://www.bankauctions.com> पर ऑनलाइन आयोजित की जायेगी। किसी भी अन्य जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता बैंक के अखिल अहमद (मोबाइल नं०- 8090287582) से बैंक के कार्यालय समय प्रातः 9:30 बजे से सायं 5:30 बजे के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं। ऋणी को यह सूचना प्रतिभूति प्रवर्तन (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के तहत 15 दिन के लिए मानना चाहिए। दिनांक: 03.01.2023

		<b>दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार</b>			
कार्यालय: अति. मुख्य अभियंता (एम) -10 निविदा प्रभाग (एम)-10, कमरा सं. 103, 1ला तल, इंजीनियर भवन, निक्ट मूलचंद क्रॉसिंग एडुजगंज, नई दिल्ली-110049					
मेल: <a href="mailto:cetm10.djb@gmail.com">cetm10.djb@gmail.com</a> , मो.: 9650291341					
<b>एनआईटी सं. 95/एसीईएम-10/ईईटी) एम-10/2022-23 प्रैस निविदा</b>					
<b>कार्य का विवरण</b>		<b>आवृत्ति</b>	<b>ई-प्रापक</b>	<b>ई-प्रापक सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि</b>	<b>ई-प्रापक सॉल्यूशन के माध्यम से डाउनलोड एवं आरटीजीएस की अंतिम तिथि</b>
1. कालकाली-कंटीयुलली एसी-51, कालकाली के अंतर्गत नाई-नं. 91 एवं गोविन्दपुरी की जलपुर्ति नेटवर्क के वाल्व के प्रचालन के लिये वाल्व अपरेटर की नया। (पुनरावर्तिन)		मद दर	517000/-	2022-0113-234083-31.12.2022	9-1-2023 के 2:00 बजे अप. तक।
इस सर्वे में अधिक विवरण वेबसाइट <a href="https://govtprocurement.dclh.gov.in">https://govtprocurement.dclh.gov.in</a> पर देखें।					हस्ता/- (बी.एस. गुप्ता)
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी विज्ञा. सं. जे.एस.बी. 433(2022-23)					कार्यपालक अभियंता (टी) एम-10
“कोरोना रोकें; मास्क पहनें; शारीरिक दूरी का पालन करें; हाथों को स्वच्छ रखें”					



**PNB Housing**

Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंशिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001  
दूरभाष : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : [www.pnbhousing.com](http://www.pnbhousing.com)

शाखा पता : प्रथम तल, सी-2/21, चन्ननदेवी  
हॉस्पिटल जनकपुरी पश्चिमी दिल्ली – 110058

## अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, ओवरहाइलकर्ता ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अनुसार न में और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली 2002 के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रस्तावित अधिकारी के प्रयोगकर्ता, भाग प्रपत्र/ए प्रत्येक खाता के समक्ष अंतिम तिथि को निम्न की थी/थी, जिन्होंने संबंधित ऋणकर्ता/ओं को प्रत्येक खाता के समक्ष अतिनागुण्य राशि का सूचना(ओं) की तिथि/उक्त सूचना(ओं) की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंतर प्रत्युत्तरित करने को कहा गया था। ऋणकर्ता/भाग राशि का प्रत्युत्तरित करने में विफल हो चुके हैं, अतः एवढुद्धा ऋणकर्ता/ओं को तथा जनसमाचार को सूचित किया जाता है कि ओवरहाइलकर्ता ने यहां हस्तें निम्न विवरणित संपत्ति/ओं का, उक्त नियमवली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित अधिकारी के प्रयोगकर्ता, प्रत्येक खाता के समक्ष अंतिम तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता/ओं को विशेष रूप में तथा जनसमाचार को एवढुद्धा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति/यों का लेन-देन न करें तथा संपत्ति/यों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, ऋणानुबंध के अनुसार एक निश्चित बकाया राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि के प्रमरानीन होगा। ऋणकर्ता का ब्याजकर्षण, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।

क्र.सं.	ऋण खाता सं.	ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता/गारंटर का नाम	भांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	अधिग्रहण तिथि जाने की तिथि	बैंककृत संपत्ति का विवरण
1	NHL/JAN/0419/6733379 या का: जनकपुरी	श्री जीतेन्द्र कुमार श्रीमती पूनम	एवं 10-01-2020	रु. 17,34,525.29/- (रुपये सत्रह लाख बीसति हजार पांच सौ पचास एवं उनीस सौ सत्रह मात्र) 10-01-2020 के अनुसार	28-12-2022	दुकान सं 12 (सत्यात्मिकरुडीडीए निर्मित), जो मूलतः एवं तल्लत तल, सीएससी नं 6 सेक्टर-16, रोडिनी, नई दिल्ली-110086 में स्थित है।

स्थान : जनकपुरी, दिनांक : 02-01-2023

प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

PUBLIC NOTICE UNDER REGULATION 8(10) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011
NEW DELHI TELEVISION LIMITED
Registered Office: B-50 A, 2nd Floor, Archana Complex, Greater Kailash-I, New Delhi-110048, India Tel: +91 11 41577777, +91 11 26446666, Fax: +91 11 49862990, CIN: L9211DL1988PLC033099
1. This public notice ("Notice") is being issued by Vishvapradhan Commercial Private Limited ("Acquirer") pursuant to Regulation 8(10) of the Securities and Exchange Board Of India (Substantial Acquisition Of Shares And Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations") to the Accepted Public Shareholders (as defined below).
2. On August 23, 2022, the Acquirer made a public announcement of an open offer to the public shareholders of New Delhi Television Limited ("Target Company") in accordance with the provisions of the SEBI (SAST) Regulations ("Open Offer"). The tendering period of the Open Offer was from 26.12.2022 to December 05, 2022. The offer price was INR 294.00 (Indian Rupees Two Hundred Ninety Four only) per equity share of the Target Company ("Offer Price"), and 53,30,792 (Fifty Three Lakhs Thirty Thousand Seven Hundred Ninety Two) equity shares of the Target Company were accepted in the Open Offer ("Accepted Shares"). The payment of consideration towards the Accepted Shares to the tendering shareholders was completed on December 15, 2022 and the post offer advertisement dated December 19, 2022 was made in accordance with the SEBI (SAST) Regulations.
3. On December 30, 2022 ("Transfer Date"), 1,75,77,676 (One Crore Seventy Five Lakhs Seventy Seven Thousand Six Hundred Seventy Six) equity shares of the Target Company were acquired by RRPR Holding Private Limited ("RRPR"), a subsidiary of the Acquirer and member of the promoter/ promoter group of the Target Company from Mr. Pranay Roy and Mrs. Radhika Roy (both of whom are also members of the promoter/ promoter group of the Target Company) at a price of INR 342.65 (Indian Rupees Three Hundred Forty Two and Sixty Five Paise only) per equity share ("Transfer Price").
4. In terms of Regulation 8(10) of the SEBI (SAST) Regulations, if an acquirer or persons acting in concert with the acquirer, acquires shares of a target company during the period of 26 (twenty six) weeks after the tendering period at a price that is higher than the offer price, then the acquirer and persons acting in concert are required to pay the difference between the highest acquisition price and the offer price to all shareholders whose shares were accepted in the open offer within a period of 60 (sixty) days from the date of such acquisition.
5. Pursuant to this Notice, the Acquirer intends to inform the public shareholders of the Target Company whose shares were accepted in the Open Offer ("Accepted Public Shareholders") that, since the Transfer Price is higher than the Offer Price, the Acquirer, in compliance with Regulation 8(10) of the SEBI (SAST) Regulations, will be making an additional payment of INR 48.65 (Indian Rupees Forty Eight and Sixty Five Paise only) per equity share (being the difference between the Transfer Price and the Offer Price) to the Accepted Public Shareholders. The said payment will be made by the Acquirer by February 28, 2023; being 60 (sixty) days from the Transfer Date.
6. The Acquirer will, through KFin Technologies Limited, the registrar to the Open Offer, send a correspondence to the Accepted Public Shareholders informing them of the aforementioned in due course.
7. This Notice is being published in all the newspapers in which the detailed public statement, pre-offer advertisement cum corrigendum, and post-offer advertisement in respect of the Open Offer were published.
Signed for and on behalf of the Acquirer
Sd/- Manish Mistry Authorised Signatory
Place: Ahmedabad Date: January 02, 2023

POST OFFER ADVERTISEMENT TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OMEGA INTERACTIVE TECHNOLOGIES LIMITED
(CIN: L67120MH1994PLC077214) ("OITL" / "TARGET COMPANY" / "TC")
Registered Office: 402, 4 <sup>th</sup> Floor, Vaastu Darshan, "B" Wing, Azad Road, Andheri (East), Mumbai 400 069, Maharashtra   Phone No. +91-22-6191 9200; Email id: <a href="mailto:omegainteractive.technologies@gmail.com">omegainteractive.technologies@gmail.com</a> ; Website: <a href="http://www.omegainteractive.net">www.omegainteractive.net</a>

Open offer for acquisition up to 1,30,000 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the total equity and voting share capital of the Target Company by Mr. Jayesh Amratlal Shah [hereinafter referred to as "the Acquirer"].

This Post Offer Advertisement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, The Manager to the offer, on behalf of the Acquirer, in connection with the offer made by the Acquirer in compliance with regulation 18 (12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulation, 2011").

The Detailed public statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirer has appeared in Financial Express - English Daily (all editions), Jansatta - Hindi Daily (all editions) and Mumbai Lakshadep - Marathi Daily (Mumbai edition) on 11th October, 2022.

1. Name of the Target Company : Omega Interactive Technologies Limited  
 2. Name of the Acquirer : Mr. Jayesh Shah  
 3. Name of Manager to the Offer : Navigant Corporate Advisors Limited  
 4. Name of Registrar to the Offer : Purva Shareregistry (India) Private Limited  
 5. Offer Details  
 a) Date of Opening of the Offer : Wednesday, 14.12.2022  
 b) Date of Closing of the Offer : Tuesday, 27.12.2022  
 6. Date of Payment of Consideration : 02.01.2023  
 7. Details of the Acquisition

Sr. No.	Particulars	Proposed in the Offer Document		Actuals	
7.1	Offer Price	Rs. 20/- per Equity Share		Rs. 20/- per Equity Share	
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	1,30,000		62,874	
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted	1,30,000		62,874	
7.4	Size of the Open Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)	Rs. 26,00,000		Rs. 12,57,480	
7.5	Shareholding of the Acquirer before Share Purchase Agreement (SPA) and Public Announcement (No. & %)	Nil (Nil)		Nil (Nil)	
7.6	Equity Shares acquired by way of Share Purchase Agreement <ul style="list-style-type: none"> <li>• Number of Equity Shares</li> <li>• % of fully diluted Equity Share capital</li> </ul>	42,098 (8.42%)		42,098 (8.42%)	
7.7	Equity Shares acquired by way of Open Offer <ul style="list-style-type: none"> <li>• Number of Equity Shares</li> <li>• % of fully diluted Equity Share capital</li> </ul>	1,30,000 (26.00%)		62,874 (12.57%)	
7.8	Equity Shares acquired after the Detailed Public Statement <ul style="list-style-type: none"> <li>• Number of Equity Shares acquired</li> <li>• Price of the Equity Shares acquired</li> <li>• % of Equity Shares acquired</li> </ul>	Not Applicable		Not Applicable	
7.9	Post-Offer shareholding of the Acquirer <ul style="list-style-type: none"> <li>• Number of Equity Shares</li> <li>• % of fully diluted Equity Share capital</li> </ul>	1,72,098 (34.42%)		1,04,972 (20.99%)	
7.10	Pre-Offer and Post-Offer shareholding of the Public Shareholders <ul style="list-style-type: none"> <li>• Number of Equity Shares</li> <li>• % of fully diluted Equity Share capital</li> </ul>	Pre-Offer 4,43,723 (88.74%)	Post-Offer 3,13,723 (62.74%)	Pre-Offer 4,43,723 (88.74%)	Post-Offer 3,80,849 (76.17%)